



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1534]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2006/पौष 7, 1928

No. 1534]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2006/PAUSA 7, 1928

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2159(अ).—राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 9 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 30 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3616 को रद्द करती है और अप्रैल, 2007 की पहली तारीख को उपर्युक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख नियत करती है।

[फा. सं. 1/12/2003-निर्यात-II]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2006

S.O. 2159(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (28 of 2006), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Textiles, number S.O. 3616, dated the 30th August, 2006, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th September, 2006, and appoints the 1st day of April, 2007, as the date on which the said Act shall come into force.

[F.No. 1/12/2003-Exports-II]

BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.